

LT FOODS LIMITED

CORPORATE OFFICE

MVL - I Park, 4th Floor Sector -15, Gurugram-122001, Haryana, India. T. +91-124-3055100 F. +91-124-3055199

CIN No.: L74899DL1990PLC041790

Registered Office

Unit No. 134, 1st Floor, Rectangle-1, Saket District Center, Saket, New Delhi -110017, India. T. +91-11-29565344 F. +91-1129563099

Ref-LTF/ SE/ 2022-23/ Date: 6th September, 2022

To,

The Bombay Stock Exchange (BSE Limited)	National Stock Exchange of India Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers	Exchange Plaza, C-1, Block G,
Dalal Street	Bandra Kurla Complex,
Mumbai- 400001	Bandra (E)
	Mumbai – 400 051

Subject: Newspaper Clippings - Financial Express and Jansatta

Ref. Code: 532783. Scrip ID: DAAWAT

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, we are enclosing herewith the Newspaper clippings from the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) editions of 6th September, 2022 where a Public Notice has been published by way of an advertisement by the Company in compliance of MCA Circular No. 20/2020 dated 05.05.2020, before sending the Notice of the ensuing AGM (Annual General Meeting) together with the Annual Report to all the Members of the Company and other persons so entitled.

Please note that the next AGM of the Company has been scheduled to be held on Friday, 30th day of September, 2022 through VC (Video Conferencing)/ OAVM (Other Audio Visual Means).

Thanking You.

Yours truly, For LT Foods Limited

Monika Chawla Jaggia Company Secretary Membership No. F5150













Namokar Trade (India) Limited

CIN: L51909WB1985PLC038407 Phone: +91-33-3297- 7609; E-mail: ratan.namokar@gmail.com;

Website:www.namokartrade.com

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 41 th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, September 30, 2022, at 11:00 a.m. at Diamond Arcade, 5th Floor, FL-504, 68, Jessore Road, Kolkata - 700055, to transact the business as mentioned in the Notice of AGM sent along with the Audited Financia Statements of the Company for the year ended March 31, 2022, and the Board's Report and Auditors Report thereon.

Dispatch of the Annual Report, 2022, along with the AGM Notice, Attendance Slip and Proxy Form, has been completed on September 5, 2022. The Notice of AGN is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. https://www.evoting.nsdl.com. Notice is further given that the Company is providing electronic voting facility from a place other than the venue of AGM ('remote e-voting') to the members to exercise their votes on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. The company has engaged NSDL for providing e voting facility. The details of remote e-voting are given below:

) The remote e-voting will commence on Tuesday, September 27, 2022 at 9.00 AM and ends on Thursday, September 29, 2022 at 5.00 PM. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter, and no one shall be allowed to vote electronically after September 29, 2022 (5:00 PM).) The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up

share capital of the Company as on the cut-off date i.e. September 23, 2022. Notice of AGM has been sent to all the members whose names appeared in the Register of Members/Beneficial Owners as on August 27, 2022. Any person who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after August 27, 2022, and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23 2022, may obtain the Login ID and Password by sending a request a

rattan.namokar@gmail.com, or call at Tel: +91-33-3297-7609 Once a vote is cast by the Member, he shall not be allowed to change subsequently. Once a vote is cast by the Member, he shall not be allowed to change it subsequently. The facility of casting vote through ballot paper will be made available at the

vote at AGM through ballot paper) The Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

AGM and the eligible members attending the AGM shall be able to cast their

In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai —400 013, at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or amitv@nsdl.co.in or at telephone nos. +91 22 2499 4600/ +91 22 2499 4360

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN that pursuant to Section 91 of th Companies Act, 2013, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 24, 2022 to Friday September 30, 2022 (both days inclusive). By Order of the Board of Directors

For Namokar Trade (India) Limited

Date: September 5, 2022

Ratan Lal Baid **Managing Director** DIN: 07060481

PURAVANKARA

PURAVANKARA LIMITED

Registered Office: #130/1, Ulsoor Road, Bengaluru 560 042, Telephone: +91 80 25599000/ 43439999, Fax No. +918025599350 Website: www.purayankara.com. Email:investors@purayankara.com. CIN:L45200KA1986PLC051571.

NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, CUT-OFF DATE AND E-VOTING INTIMATION

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, September 27, 2022 at 11.30 A.M. (IST) through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) [in terms of General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs to transact the business as set out in the Notice of the Meeting, which has been e-mailed to the members of the Company on September 03, 2022, along with the Annual Report for the Financia Year Ended 31.03.2022, and the same is also available on the Company's website www.puravankara.com on the following links and on the website of National Depository for Securities Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com

2021-22

https://www.puravankara.com/pages/Annual-Report-2021-22.pdf Notice of the 36th AGM https://www.puravankara.com/pages/notice-of-AGM-2021-22.pdf

In compliance with the Circular, Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 is being sent ONLY through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories as on August 26, 2022.

Pursuant to the Circulars physical attendance of the Members at the Annual Genera Meeting venue is not required as AGM will be held through video conferencing (VC) or RECORD DATE: Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule

10 of the Companies Management and Administration Rules, 2014 and Regulation 60 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed on September 16, 2022, to determine the Members entitled to receive the Final Dividend for the Financial Year 2021-2022. DIVIDEND: The Final dividend on equity shares at Rs. 5/- (100%) per equity share of Rs.5/-

each was recommended by the Board of Directors of the Company at its Meeting held on May 27, 2022. The Final dividend on equity shares, if declared at the Annual General Meeting, would be paid within a period of 30 days from the date of declaration, to those members whose names appear on the Register of Members as on September 16, 2022.

E-VOTING MATTERS: In compliance with the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide e-voting facility to members to exercise their vote electronically for the resolutions set in the Notice of AGM dated August 29, 2022, from a place other than the venue of the meeting (e-voting). The Company has availed the e-voting services as provided by NSDL and the e-voting facility shall be available during the following period:

Commencement of Remote From 9.00 A.M (IST), Saturday, September 24, 2022 Upto 5.00 P.M (IST), Monday, September 26, 2022 End of Remote e-voting Cut-off date/ Record date September 16, 2022

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the compan after dispatch of the notice and holding shares as of the said cut-off date, may obtain the Login id and Password by sending a request at e-voting@nsdl.co.in or contact NSDL on Telephone 1800-222-990 or 1800 22 44 30 or helpdesk.evoting@cdslindia.com or

contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43. Members are requested to read the instruction pertaining to e-voting provided in the Notice of the AGM. In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer the frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing User ID and Password can be used for casting the vote. Contact details of the person responsible to

address the grievances connected with the electronic voting: investors@puravankara.com Remote e-voting shall not be allowed beyond the end time as stated above as the same

would be disabled by NSDL thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred

from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. September 16, 2022. Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice of AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed procedure for e-voting is provided in the Notice of the AGM.

Bengaluru, as Scrutinizer, for conducting the e-voting process and ballot process in a fair and transparent manner. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to

The Company has appointed Mr. Nagendra D Rao, Company Secretary in Practice,

change it subsequently. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off date.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC / OAVM ARE AS UNDER:

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast of AGM provided by NSDL at https://www.evoting.nsdl.com by using their remote e-voting

login credentials and selecting the EVEN for Company's AGM. Members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the

User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the Notice. Further Members can also use the OTP based login for logging into the e-voting system of NSDL

The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. Members who need assistance before or during the AGM may contact National Securities Depository Ltd., on evoting@nsdl.co.in / 1800-222-990.

Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID/folio number, PAN, mobile number at investors@puravankara.com from Saturday, September 03, 2022 at 9.00 A.M. (IST) to Friday, September 23, 2022, 5.00 P.M. (IST). Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

Documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered office of the Company during the normal business hours (09:00 A.M. to 5:00P.M.) on all working days (except Saturdays, Sundays and Public Holidays), up to the date of Annual General Meeting of the Company,

> BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR PURAVANKARA LIMITED

NANI R CHOKSEY VICE - CHAIRMAN DIN: 00504555

PayU's \$4.7-billion acquisition of BillDesk gets CCI approval

FE BUREAU Bengaluru, September 5

THE COMPETITION COM-MISSION of India (CCI) on Monday approved payments service provider PayU's \$4.7billion acquisition of payment gateway platform BillDesk almost a year after the deal was signed. The deal is touted to be one of the largest in the internet segment in India after Walmart's \$16-billion acquisition of Flipkart in 2018. The acquisition will allow

PayU's lead investor Prosus Ventures to scale up its payments and fintech business in India and abroad. PayU cur-



rently operates which operates in more than 20 markets, as one of the leading online payment providers globally by total payment volume (TPV), aggregating \$147 billion. The deal will also bring Pro-

sus's cumulative investment in

Indian tech to over \$10 billion, the company had said. "Together, PayU India and BillDesk will be able to meet the changing payments needs of digital consumers, merchants and the Government enterprises in India and offer state-of-the-art technology to even more of the excluded sections of society, while adhering to the regulatory environment in India and delivering robust consumer protection," Prosus' statement said.

The deal was delayed for almost a year as the CCI sought additional information from both parties involved in the deal after it flagged a potential

monopoly issue in the payment gateway space. The deal marks PayU's fourth fintech acquisition in India in less than five years, after CitrusPay, Paysense and Wibmo. "Together, PayU India and BillDesk will be able to meet

the changing payments needs of digital consumers, merchants and government enterprises in India and offer stateof-the-art technology to even more of the excluded sections of society," the companies said in a statement last year.

Founded in 2000, BillDesk's TPV stood at over \$90 billion in FY21, the firm's website showed.

Exchanges standardise disclosures by listed firms

FE BUREAU Mumbai, September 5

based compliance

STOCK EXCHANGES HAVE implemented a new XBRL-

filing mechanism featuring identical and homogenous compliance data structures. This will not only ease the compliance burden on listed entities but also enable analytics on the data submitted by the listed entities, a the prescribed timelines as laid

Exchange of India (NSE) on Monday said.

joint statement put out by BSE

and the National Stock

Market Data Advisory committee constituted to recommend policy measures in areas such as securities market data standardisation, access and

privacy, it was The move to deliberated that not only ease XBRL would be compliance implemented for all corporate filburden, but also enable

Listed entities analytics on the are required to data submitted by submit periodithe listed entities cal compliance filings to stock exchanges within

down in Sebi Listing Regula tions and accordingly, they were mandated to report XBRL-based filings for finan-Under the aegis of Sebi cials from 2015 onwards.

FROM THE FRONT PAGE

Govt to sell balance HZL stake in tranches

Dipam has invited applications from reputed legal firms, which can submit proposals by September 16, to select an adviser for the transactions. The share of HZL closed at ₹287.55 on the BSE on Monday, up 0.77% from the previous close.

With not many big-ticket transactions in the immediate pipeline, the sale of the HZL stake is critical to boost the government's non-debt capital receipts in FY23.

So far during the current financial year, ₹24,544 crore, or 38% of the annual disinvestment target of ₹65,000 crore, has been mopped up. The transactions that have been concluded include the initial public offer of LIC, a few offers for sale (OFS) and buyback of shares.

The government is looking at garnering more disinvestment receipts in the current financial year, as it tries to step up capex and meet additional subsidy costs totalling about ₹2 trillion. As per a Supreme Court order dated November 18, 2021, the Centre can sell its residual stake in HZL in the open market under Sebi rules.

Recently, the Centre and Vedanta, the promoter of HZL, had mutually decided to end an arbitration concerning the second call option demanded by Vedanta in the residual stake sale. In 2002, Vedanta (earlier known as Sesa Sterlite) bought a 26% stake in HZL, India's largest zinc/lead miner. It exercised the first call option in 2003 and acquired an 18.9% additional stake in HZL. Vedanta

later acquired another 20% stake in the company through an open offer, increasing its shareholding to 64.92%.

Bollywood brand power taking a hit

Various agency dipsticks show that an overwhelming majority of millennial consumers are influenced by the recommendations of their peers in buying decisions. Surveys show about 25-

30% of consumers are likely to buy a product recommended by a non-celebrity blogger as they can relate more to these influencers and value their opinions more than that of celebrity influencers. "Prices (of Bollywood A-listers) have not really dropped," says Sandeep Goyal, managing director at Rediffusion."But the impact will be felt in a few months as most brand owners are exploring options and researching alternatives. Then the negotiations will begin." Observers say there won't be a crash but a price correction is inevitable.

There are some who do not agree with this theory of fading brand power of Bollywood A-listers. A brand communication strategist says, "starpower is not as fragile as it is made out to be."

"Look at how Amitabh Bachchan came back from the brink in his acting career and is still the most sought after brand endorser.When Cadbury had to assuage consumer concerns after the early 2000s worm infestation crisis, they got Amitabh. Maggi followed the same route. That pull factor persists. He is the host of KBC, which is into its 14th season, based on a format that is 25-

UK puts its trust in Truss But in a sign of deep divisions in her party, her winning margin was much narrower than had been expected and the

narrowest in any Conservative leadership election held this century. Truss also won with the support of less than 50% of

members, as almost one in five did not vote. "It's right we now unite

behind the new PM, Liz Truss,

year-old," he adds.

Ambi Parameswaran, brand strategist and founder Brand-Building.com, says, "some flops will not diminish their appeal – all of them have had flops in the past. I am not sure if a mass market brand will want to give up on a Bollywood star and rope in an OTT actor. In the past, stars used to demand what they felt was their god-given right. Brands now will get some elbow space to negotiate better." Ad tech professionals point

out that marketers and endorsers have many tools in their hands today to bolster campaigns after the celebrity endorser has done the first task of drawing attention. They are leveraging artificial intelligence for lead scoring to determine who their most profitable customers are. The marketing teams can then send campaigns with targeted incentives and rewards to these customers, and spend less time on those with low purchase intent. Net-net, they say, the success or failure of a brand campaign today is not exclusively dependent on the celebrity per se as was the case

as she steers the country through difficult times." Sunak said on Twitter.

Truss will succeed Boris Johnson, who was forced to announce his resignation in July after months of scandals saw support for his administration drain away and ministers quit to force him out. Johnson will travel to Scot-

land to meet Queen Elizabeth on Tuesday to officially tender

before technology changed the rules of the game.

Extreme volatility since Fed's Jackson Hole remarks: Das Markets across the world

tanked in the wake of his comments.Das added that the difficulty in offering guidance gets further compounded in a highly uncertain environment. "Such forward guidance may even have destabilising effects on financial markets, especially if the subsequent policy actions are at variance with earlier pronouncements," he observed.

Amid a turbulent global environment, the resilience exhibited by Indian financial markets reflects the robust macroeconomicfundamentals of the economy, Das said. Among India's chief strengths, he enumerated the country's status as one of the fastestgrowing major economies in the world and its favourable growth differential, reflected in the surge of portfolio flows into

monarch.

his resignation. Truss will fol-

low him and be asked to form

a government by the

"I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country," Johnson said on Twitter. "Now is the time for all Conservatives to get behind her 100%." **—REUTERS**

pressures have eased the terms

of trade shock that India faced in the aftermath of the pandemic

> than the RBI's assumption of \$105 for the full year. "The shift in the commodity

The governor went a step ahead of the RBI's usual line that it intervenes in the currency markets only to curb volatility, stating that the central bank was ensuring there

rupee's level. "Our endeavour amidst the extraordinary events unfolding globally on an ongoing basis has been to anchor expectations and allow the exchange rate to reflect the fundamentals rather than overshoot,"Das said.

Some market experts have taken the view that the RBI should allow the rupee to track fundamentals rather than intervening aggressively to protect a certain level. The fall in the rupee was set offearlier this year as a result of foreign fund outflows amid monetary tightening in the US and other advanced economies. The domestic currency touched an all-time low of 80.11 to the US dollar on August 29. Das lauded money market

participants'support in helping the government smoothly execute its borrowing programme despite the increased issuances in the last two years. The normalisation of liquidity conditions and the transition away from Libor has also been achieved with relative smooth ness, he said. However, he asked market

participants to improve their of customers on the FX-Retail platform can be faster, Das said.

discovery of rupee products will also consolidate in the onshore market,"Das added

LT Foods

CIN L74899DL1990PLC041790 Regd. Off.: Unit No. 134, 1st Floor, Rectangle-1, Saket District Centre, New Delhi-110017 Tel.: 011- 29565344 Corp Off: 4th Floor, MVL- I Park, Sector-15, Gurugram-122001 Tel: 0124-3055100, Email: ir@ltgroup.in Website: www.ltgroup.in

PUBLIC NOTICE FOR KIND ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF LT FOODS LIMITED

- Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, 30th September 2022 at 12.00 Noon, through Video Conferencing / Other Audio Visual Means in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 19/2021, 21/2021 and 02/2022 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and SEBI Circulars SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15.01.2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13.05.2022 permitting the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the Ordinary and Special businesses set out in the Notice.
- In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered/available with the Company/Depository Participants. However, the Shareholders of the Company may request physical copy of the Notice and Annual Report from the Company by sending a request at: ir@ltgroup.in in case they wish to obtain the same.
- website of the Stock exchanges (NSE & BSE) and on the website of the NSDL (agency for providing the Remote e-voting facility) at https://www.evoting.nsdl.com/ · Shareholders holding shares in dematerialised mode are requested to register their email addresses, mobile number, PAN, nominations,

3. The Notice of the AGM and the Annual Report will be available on the

Company's website http://ltgroup.in/ in the Investor Updates Section,

· Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses, mobile number, PAN, nominations, power of attorney or any other details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent to Bigshare Services Pvt. Ltd., 302, Kushal Bazar, 32-33, Nehru Place, New Delhi - 110019 Tel: 011-42425004 Fax: 022-28475207 Email id: investor.del@bigshareonline.com and bssdelhi@bigshareonline.com website: https://www.bigshareonline.com/

power of attorney or any other details, with their relevant depository

- Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for Shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be available in the Notice of the
- 5. The Notice of 32nd AGM will be sent to the Shareholders in accordance with the applicable laws on their email shortly.
- 6. Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September 23rd, 2022 to Friday, September 30th, 2022 for the AGM, (both days

Place: Gurugram Date: September 06, 2022

Monika Chawla Jaggia Company Secretary & Compliance Officer Membership No. F5150

For LT Foods Limited

QUASAR INDIA LIMITED CIN: L67190DL1979PLC009555

Regd. Office: 305, Plot No. 3, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 | Mob.: 9625304043 E mail: quasarindia123@gmail.com | Website: www.quasarindia.ir

29, 2022 at 01:00 P.M. at Shop No. 305, Plot No. 3 Third Floor, Aggarwal Plaza Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting") The Annual Report for the financial year 2021-22 including the Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered

The Annual Report for the financial year 2021-22 including the Notice is available on the website of the Company (www.guasarindia.in) and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Sundays and Public Holidays, during business hours up to the

on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("evoting"). Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) as

and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. . The formal of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.quasarindia.in and on the website of CDSL www.evotingindia.com.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and CDSL's website. If the members already registered with CDSL for e-voting, he can use his existing User ID and password for

REGISTRATION OF EMAIL ADDRESS: Members who have not vet

casting the vote through remote e-voting.

Date: 05/09/2022

Place: Delhi

meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again. RECORD DATE

2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Thursday, September 22, 2022 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the Annual General Meeting. For Quasar India Limited

Harish Kumar (Director)

ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED) Regd. Office: Unit No. 102, 1" Floor, Block-B, Pegasus One, Golf Course Road. Sector-53, Gurugram, Haryana-122003, India. Tel: +91 (124) 490-3344, CIN: U64201HR2008PLC053766

Website: www.mobikwik.com, Email: cs@mobikwik.com NOTICE OF THE 14™ ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 14" Annual General Meeting ('AGM') of the Members of the Company will be convened on Wednesday, September 28, 2022 at 9:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with MCA General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2022 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020

and May 05, 2022 respectively, to the transact the businesses at set out in the Notice of AGM.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual

August 26, 2022 whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participants (DPs) / Registrar and Share Transfer Agent (R&T Agent), as the case may be. files/investor-relations/meetings/OMK-AGM-Notice-2022.pdf and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp. The members who hold shares in physical form and/or who have not yet registered their email

addresses with the Company/RTA/Depository can register and obtain the Notice of AGM and Annual Report and the login details for joining the AGM and voting through remote e-voting and e-voting at the AGM by sending the required documents and information to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33.

The details pertaining to AGM and e-voting process is appended below: The date and time for commencement and end of remote e-voting: -

Particulars	Date	Time
Commencement of remote e-voting	Saturday, September 24, 2022	9:00 A.M. (IST)
End of remote e-voting	Tuesday, September 27, 2022	5:00 P. M. (IST)
The remote e-voting shall be disabled in the general meeting even after exercises		

owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e. Wednesday, September 21, 2022 shall be entitled to vote through remote e-voting/e-voting at the AGM.

eligible to cast their vote through electronic voting during the meeting, in the manner as provided in the Notice of AGM.

holding shares as on the cut-off date i.e. September 21, 2022 can also vote by obtaining the login ID and password by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33. For detailed instructions pertaining to remote e-voting and e-voting at the AGM, members

may please refer to the section "Notes" in the Notice of AGM. In case shareholders/ members have any queries regarding login / e-voting, they may contact to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or

> For One MobiKwik Systems limited (Formerly One MobiKwik Systems Private Limited)

Rahul Luthra

financialexp.epap.in

PLACE: BENGALURU DATE: 05.09.2022

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of the members of Quasar India Limited ("the Company") will be held on Thursday, September

address by courier, and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories / Company.

date of the Meeting. The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote

the Agency to provide e-voting facility The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID

The remote e-voting facility shall commence on Monday, September 26, 2022 from 9:00 a.m. and end on Wednesday September 28, 2022 at 5:00 p.m. The remote a-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial

be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Owners as on the cut-off date, i.e., Thursday, September 22, 2022, only shall

registered their email addresses are requested to register their email addresses. Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant and to Skyline Financial Services Private Limited ('RTA') for members holding shares in physical form. Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act,

DIN: 02591868

India since July 2022. The recent softening of commodity prices and supply chain

> and the war, Das said. He reiterated that with the consequent easing of imported inflation pressures, India's consumer price index (CPI) inflation has peaked in April 2022. Further, he took comfort in the fact that the average Indian basket crude price in August at \$97.4 perbarrel has turned out to be lower

price outlook is also altering the assessment of India's current account deficit in 2022-23, which is now expected to remain well within sustainable levels,"Das said. He listed India's large buffer stocks of food grains, foreign exchange reserves of \$561 billion and the health of the banking system as other sources of comfort.

was no "overshoot" in the

performance in terms of delivery of services to retail investors by ensuring liquidity for them throughout market hours on the NDS-OM platform. The response time and onboarding

With the increased linkages between domestic and global markets, banks must put in place adequate supporting infrastructure backed by exper-

tise in risk management. "As the footprints of banks in India increase in the offshore markets, it is expected that price

MobiKwik

(POST DISPATCH OF AGM NOTICE & ANNUAL REPORT

Report for FY 2021-22, have been sent through electronic mode to those Members as on

shall not be allowed to vote again in the meeting. Once, the vote on a resolution is casted by the member, the same cannot be modified subsequently. 2. A person whose name is recorded in the register of member, or the register of beneficial

Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be

4. Members who are holding shares in physical form and those persons who acquires and becomes shareholder of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and

send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33. The aforementioned information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and follows MCA circulars.

Company Secretary & Compliance Officer

New Delhi

Date: September 05, 2022

Place: Gurugram

आकाशदीप मैटल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L28998DL1983PLC017150

पंजीकृत कार्यालय: 14, दयानन्द विहार, बैकसाइड ग्राऊन्ड फ्लोर, विकास मार्ग एक्सटेन्सन, दिल्ली-110092, Tel: +91-11-43011038, वेबसाइट: www.akashdeepmetal.in; ईमेल: info.akashdeep14@gmail.com

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण परिपत्र संख्या दिनांक अप्रैल 8, 2020, अप्रैल 13, 2020, मई 05, 2020, मई 05, 2020 एवं मई 05, 2022 एवं अन्य लागू परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र दिनांक मई 12, 2020 एवं मई 12, 2022 के अनुपालन में एदतद्वारा स्चना प्रदान की जाती है कि आकाशदीप मैटल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड की अठतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") मंगलवार सितम्बर 27, 2022 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) पर विडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजवल माध्यम ("ओएवीएम") साथ मे कम्पनीज अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सविधा द्वारा एजीएम की संचना में निहित व्यवसायिक निष्पादन हेत आयोजित की जायेगी। उपरोक्त एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट एजीएम की सूचना के साथ उन सदस्यों जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपाटरीज के पास पंजीकृत को इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा भेजी जा रही हैं। इसलिए, जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सम्बन्धित डिपाटरीज भागीदार के पास उसे पंजीकृत करा लें। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट यानि www.akashdeepmetal.in, स्टॉक एक्सचेन्ज यानि www.bseindia.com एवं एनएसडीएल यानि www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम से पहले एवं बाद में उनके वोट देने के लिए नेशनल सिक्योरीटीज डिपॉटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) के द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की एजीएम की सूचना में निहित व्यवसायों पर इलेक्ट्रानिकली वोट देने की सुविधा प्रदान करा रही है। कम्पनी रिमोट ई-वोटिंग की सविध प्रदान कराने के लिए नेशनल सिक्योरीटीज डिपॉटरीज

रिमोट ई-वोटिंग शनिवार. 24 सितम्बर. 2022 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) पर प्रारम्भ होकर सोमवार 26 सितम्बर, 2022 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। उपरोकत तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों की पंजिका/लाभदाई स्वामी की पंजिका में कट-ऑफ तिथि यानि शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को अंकित होगा केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ एजीएम से पहले और दौरान वोटिंग की सुविधा का हकदार होगा। किसी व्यक्ति, जिसने कम्पनी शेयर्स अर्जित किये हों और एजीएम की सूचना को भेजने के बाद कम्पनी का सदस्य बना हो और कट ऑफ तिथि यानि शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को शेयर धारण करता हो, यूजर आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध कर सकता है। फिर भी यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत है तब वह वोट देने के लिए पहले वाली यूजर आईडी एवं पास वर्ड का प्रयोग कर सकता है।

जिन सदस्यों/शेयरधारकों ने ई-वोटिंग के दौरान अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक के दौरान केवल इलेक्टानिकली अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए ई-वोटिंग मापांक को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे बैठक में भाग ले सकते है लेकिन फिर से वोट देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी को ई-मेलः nfo.akashdeep14@gmail.com अथवा 14. दयानन्द विहार, बैकसाइड ग्राऊन्ड फ्लोर, विकास मार्ग एक्सटेन्सन, दिल्ली-110092. दरभाषः +91-11-43011038, पर सम्पर्क कर सकते है।

कृते आकाशदीप मैटल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

तिथि: 05.09.2022 स्थानः दिल्ली

गया है, के अध्याधीन होगा।

पुत्र श्री फूल सिंह।

शाखा- आईबीबी, आगरा

शाखा–एटा जी०टी०, रोड

शाखा-एटा जी०टी०. रोड

स्वर्गीय जैत सिंह।

पत्नी असफी लाल

सिंह पुत्र छेदा लाल।

सेंह पुत्र छेदा लाल।

गारत सिंह।

शाखा-एटा जीवटीव, रोड

ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर-

शाखा-एटा जी०टी०, रोड

शाखा-एटा जी०टी०, रोड

ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर-

ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर-

मैसर्स जेoएसo कंसट्रक्शन

चन्द्र पुत्र असफी लाल, भूदेवी

शाखा-एटा, ओबीसी, एटा

ऋणियों / बंधककर्ताओं /

गारन्टरों व शाखा का नाम

देयों को चुकता कर बंधक सम्पत्ति को वापिस छुड़ा लें।

Servotech Power Systems Limited

CIN: L31200DL2004PLC129379 Registered Office: 806, 8" Floor, Crown Heights, Hotel Crown Plaza, Sector 10, Rohini, New Delhi-110085 | Tel No.: 011-41130158 Email: investor.relations@servotechindia.com | Website: www.servotech.in PUBLIC NOTICE FOR ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY IN RESPECT OF INFORMATION REGARDING EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON SATURDAY, 1ST OCTOBER, 2022 THROUGH VIDEO CONFERENCING

Shareholders may note that the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company will be held through Video conferencing (VC)/Other Audio-visual means (OAVM) on Saturday, 1" October, 2022 at 11:00 A.M. IST in compliance with General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.

(VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the EGM will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The notice of the EGM will also be made available on the Company's website, at www.servotech.in, NSE at www.nseindia.com and on the NSDL's website, at www.evoting.nsdl.com

Manner for registering email addresses:

In case shares are held in Physical mode, please send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company i.e. Bigshare Services Private Limited (Bigshare/RTA) at info@bigshareonline.com providing folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back). PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. In case shares are held in dematerialized mode, please contact your Depository

demat account, as per the process advised by your DP.

Manner of casting vote through e-voting:

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the EGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders which will also be made available on the website of the Company.

Shareholders are requested to update their complete bank details with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with Bigshare (where shares are held in physical mode) at info@bigshareonline.com along with details; a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, if paid in the future, b) the Bank Account type, c) Bank Account Number allotted by their banks after implementation of Core Banking Solutions d) 9-digit MICR Code Number, e) 11-digit IFSC Code and f) a scanned copy of the cancelled cheque bearing the name of the first shareholder

Date: 05.09.2022

टांजाब टोशटाटा बेंबर

punjab national bank

अोरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स 🕜 यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया मण्डलीय कार्यालय:–1–2, रघुनाथ नगर, महात्मा गांधी मार्ग, आगरा

चल/अचल सम्पत्तियों का कब्जा नोटिस

{प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत}

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम–3 के साथ सहपठित

धारा—13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत **अधिकारी** ने निम्नलिखित बकायेदार ऋणियों / गारन्टरों / बंधककर्ताओ

को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु खाते के सम्मुख अंकित तिथि को मांग नोटिस जारी किया था।

ऋणियों / गारन्टरों / बंधककर्ताओं के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतदद्वारा आम जनता को एवं ऋणियों / गारन्टरों / बंधककर्ताओं को विशेष रूप से

सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्तियों का उपरोक्त अधिनियम की धारा–13 (4) एवं नियम के उपनियम–8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

जघोहस्ताक्षरी द्वारा **कब्जा** उनके सम्मुख अंकित तिथि को **ले** लिया गया है। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के संबन्ध में

अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतदद्वारा ऋणियों / गारन्टरों / बंधककर्ताओं को विशेषतः और जनसाधारण को

सामान्यतः सुचित किया जाता है कि चुँकि निम्न सम्पत्तियों का **सांकेतिक कब्जा ले** लिया गया है, अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा / व्यवहार बैंक वे

अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा / व्यवहार पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया

ऋणियों एवं गारन्टरों / बंधककर्ताओं का ध्यान, एक्ट के सेक्शन-13 के सब सेक्शन (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, कि वे उपलब्ध समय में बैंक के

बंधक सम्पत्तियों का विवरण

बंधक प्रतिभृति-2 साम्यिक बंधक जमीन और बिल्डिंग कोल्ड स्टोरेज

क्षेत्रफल-5705 वर्गमीटर खसरा नम्बर 241 का भाग, मौजा सेवला अहीर

कुरांचित्तरपुर रोड तहसील फतेहाबाद आगरा सम्पत्ति स्वामी मैसर्स ओम श्री

मुरलीधर कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड पता नगला भैरी, पोस्ट कक्आ,

इटोरा, आगरा। चौहददी:— पूर्व—श्री ओम प्रकाश की कृषि भूमि, पश्चिम—लिंक

रोड सेवला अहीर, उत्तर–लिंक रोड कुरांचित्तरपुर, दक्षिण–श्री ओम प्रकाश की

बंधक प्रतिभृति-3 सान्यिक बंधक जमीन और बिल्डिंग क्षेत्रफल-2184.92

वर्गमीटर रिधत खसरा नम्बर 246, मौजा कक्आ आगरा सम्पत्ति स्वामी श्री पप्प

पुत्र श्री प्रभु दयाल निवासी नगला भैरी, पोस्ट ककुआ इंटोरा, आगरा-282001

वौहददी:- पूर्व-अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम-आगरा ग्वालियर रोड

उत्तर-इश्वरी प्रसाद की सम्पत्ति, दक्षिण-वीरी सिंह, विष्णु और धर्मेन्द्र की

बंधक प्रतिभृति-4 साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल-167.22

वर्गमीटर रिधत प्लॉट नम्बर-10, खसरा नम्बर-893, ओम गार्डन, मौजा इटोरा,

आगरा सम्पत्ति स्वामी श्री उदयवीर सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी 37/202

ग्वालियर रोड बुन्दु कटरा, आगरा चौहददी:- पूर्व-रोड, पश्चिम-प्लॉट

पूर्व-रास्ता 15 फुट चौड़ा, पश्चिम-रनवीर सिंह का मकान, उत्तर-रास्ता 15

साम्यिक बंधक सम्पत्ति स्थित मौजा दुल्हापुर, परगना एटा सकीट तहसील एव

जिला एटा, उत्तर प्रदेश रिकार्ड बही नम्बर 01, जिल्द नम्बर 5002 पृष्ठ नम्बर

सब रजिस्ट्रार एटा, सम्पत्ति स्वामी सर्वेश कुमारी पत्नी स्वर्गीय जैत सिंह,

वौहददी:- पूर्व-प्लॉट नम्बर 67, पश्चिम-रास्ता 15 फुट चौड़ा, उत्तर-प्लॉट

एटा, क्षेत्रफल-223.20 मीटर्स, सम्पत्ति स्वामी हाकिम सिंह असफी लाल, महेश

चन्द्र पुत्र असफी लाल एवं भूदेवी पत्नी असफी लाल, चौहददी:- पूर्व-12 फुट

366 क्रमांक नम्बर 7257, दिनांक 30.06.2017 सब रजिस्ट्रार एटा,

चौहददी:- पूर्व-बदन सिंह का मकान, पश्चिम-कल्पना देवी का मकान,

संशोधित सेल डीड के अनुसार-साम्यिक बंधक सम्पत्ति स्थित मौजा नगला

प्रेमी मजरा भागीपुर बहार चुंगी, एटा, परगना एटा सकीट तहसील एवं जिला एटा, उत्तर प्रदेश रिकार्ड बही नम्बर 01, जिल्द नम्बर 8189 पृष्ठ नम्बर 25 से

40 क्रमांक नम्बर 15935, दिनांक 19.10.2019 सब रजिस्ट्रार एटा,

क्षेत्रफल–127.87 मीटर्स सम्पत्ति स्वामी गुड्डी देवी पत्नी धर्मेन्द्र कुमार

चौहददी:- पूर्व-बदन सिंह का मकान, पश्चिम-श्रीमती का प्लॉट,

प्लॉट, पश्चिम–रास्ता 10 फुट, उत्तर–सुभाष चन्द्र का मकान, दक्षिण–इतवारी

साम्यिक बंधक सम्पत्ति रिधत गाटा नम्बर-785 का भाग मौजा/मुहल्ला

326 क्रमांक नम्बर 192, दिनांक 04.01.2014 सब रजिस्ट्रार एटा, क्षेत्रफल-14.

79 मीटर्स सम्पत्ति स्वामी अनुपमा यादव पत्नी योगेन्द्र सिंह यादव, चौहददी:--

पूर्व-गंगा प्रसाद इत्यादि का प्लॉट, पश्चिम-राम प्रकाश एवं योगन्द्र सिंह का

साम्यिक बंधक सम्पत्ति रिधत मौजा- चमकारी, परगना एटा, सकीट तहसील

वौहद्दी:- पूर्व-राजेश तिवारी का प्लॉट, पश्चिम-रास्ता 20 फुट चौड़ा,

रास्ता, पश्चिम-मुकीर का खेत, उत्तर-मुकीर का खेत, दक्षिण-जीवटीव रोड

नम्बर–11, उत्तर–मकान नम्बर–9, दक्षिण–अन्य का मकान।

एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम

ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर— **बंधक प्रतिभृति—1** दृष्टिबंधक किराये के उददेश्य और उसकी प्राप्ति के लिए

डायरेक्टर्स मैसर्स ओम श्री कोल्ड स्टोरेज में संग्रहीत आलू के तीसरे पक्ष के स्टॉक का दृष्टिबंधक (जिसमें

मुरलीघर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट ऐसे स्टॉक को गिरवी रखने का अधिकार कोल्ड स्टोरेज के मालिक को दिया

लिमिटेड, श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री गया है जिसके खिलाफ मालिक द्वारा किसानों को अग्रिम किया गया है

जमीन उसके बाद श्री बाबुलाल की जमीन।

ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर-- साम्यिक बंधक सम्पत्ति स्थित श्रंगार नगर, परगना एटा सकीट जिला एटा,

श्री दिनेश बाबू पुत्र लायक सिंह उत्तर प्रदेश रिकार्ड वही नम्बर 01, जिल्द नम्बर 2766 पृष्ठ नम्बर 125 से 164

गारन्टर) लायक सिंह पुत्र क्रमांक नम्बर 4551, दिनांक 20.04.2013 क्षेत्रफल-139.50 मीटर्स सब

हेतराम, सत्यवती पत्नी दिनेश रजिस्ट्रार एटा, सम्पत्ति स्वामी दिनेश बाबू पुत्र लायक सिंह, चौहद्दी:-

प्रोपराइटर) सर्वेश कुमारी पत्नी | 373 से 398 क्रमांक नम्बर 12630, दिनांक 16.09.2015 क्षेत्रफल—116.25 मीटर्स

ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर- साम्यिक बंधक सम्पत्ति स्थित भूमि नम्बर ६८२, शीतल पुर, परगना एटा सकीट

मैसर्स एच0एस0 मोटर्स, तहसील एवं जिला एटा, उत्तर प्रदेश रिकार्ड बही नम्बर 01, जिल्द नम्बर 1108

(प्रोपराइटर) हाकिम सिंह पुत्र असफी लाल, (गारन्टर) महेश एटा क्षेत्रफल-223.20 मीटर्स समानि खामी शक्तिम सिंह असफी लाल एटा क्षेत्रफल-223.20 मीटर्स समानि खामी शक्तिम सिंह असफी लाल एटा

5. ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर- वास्तविका सेल डीड के अनुसार-साम्यिक बंधक सम्पत्ति स्थित मौजा नगला

डिडी देवी पत्नी धर्मेन्द्र कुमार प्रेमी मजरा भागीपुर बहार चुंगी, एटा, परगना एटा सकीट तहसील एवं जिला

सह— ऋणी) धर्मेन्द्र कुमार पुत्र एटा, उत्तर प्रदेश रिकार्ड बही नम्बर 01, जिल्द नम्बर 6381 पृष्ठ नम्बर 333 से

शाखा-एटा जी०टी०, रोड, एटा क्षेत्रफल-127.87 मीटर्स सम्पत्ति स्वामी गुड्डी देवी पत्नी धर्मेन्द्र कुमार,

उत्तर—रामवीर का प्लॉट, दक्षिण—रास्ता 20 फुट चौड़ा ।

उत्तर-रामवीर का प्लॉट, दक्षिण-रास्ता २० फूट चौडा।

ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर-- साम्यिक बंधक सम्पत्ति स्थित गाटा नम्बर-785 का भाग मौजा नगला प्रेमी

ग्रेगन्द्र सिंह यादव पुत्र मजरा भागीपुर (बहार चुंगी), परगना एटा सकीट तहसील एवं जिला एटा, उत्तर

छे दालाल, (सह—ऋणी) प्रदेश रिकार्ड बही नम्बर 01, जिल्द नम्बर 2799 पृष्ठ नम्बर 69 से 98 क्रमांक

ब्रनुपमा यादव पत्नी योगेन्द्र नम्बर 5114, दिनांक 04.05.2013 सब रजिस्ट्रार एटा, क्षेत्रफल-116.32 मीटर्स

सह यादव, (गारन्टर) जगतेन्द्र सम्पत्ति स्वामी योगेन्द्र सिंह यादव पुत्र छेदालाल, चौहद्दी:- पूर्व-विक्रेता का

अनुपमा यादव पत्नी योगेन्द्र नगला प्रेमी मजरा भागीपुर, बहार चुंगी, परगना एटा सकीट तहसील एवं जिला

सह यादव, (गारन्टर) योगेन्द्र एटा, उत्तर प्रदेश रिकार्ड बही नम्बर 01, जिल्द नम्बर 3431 पृष्ठ नम्बर 283 से

हरभान सिंह पुत्र अमर सिंह, एवं जिला एटा, उत्तर प्रदेश रिकार्ड बही नम्बर 01, जिल्द नम्बर 3417 पृष्ठ

(गारन्टर) अहलवारन सिंह पुत्र एटा, क्षेत्रफल-79.05 मीटर्स सम्पत्ति स्वामी मालती देवी पत्नी हरभान सिंह, रू

मालती देवी पत्नी हरभान सिंह, नम्बर 199 से 226 क्रमांक नम्बर 16166, दिनांक 31.12.2013 सब रजिस्ट्रार

प्लॉट, उत्तर–रास्ता 30 फुट, दक्षिण–इतवारी लाल इत्यादि ।

उत्तर—भूपेन्द्र इत्यादि का प्लॉट, दक्षिण—हर्ष यादव का प्लॉट।

फुट चौडा, दक्षिण-वीनेश का मकान।

नम्बर-80, दक्षिण-प्लॉट नम्बर-78

कैलाश सिंह, श्री पप्पू पुत्र प्रमू प्राप्तियों का यानी किसानों को जो अग्रिम दिया गया उसका दृष्टिबंधक। दयाल, ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र भौतिक कब्जा लिया गया। धनीराम और श्री उदय वीर सिंह बंधक प्रतिमति—2 साम्यिक बंधक जमीन और बिल्डिंग कोल्ड र

Priya Pandey

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 1911 से आपके लिए "केन्डिन" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 शाखा कार्यालयः गूलमोहर पार्क, नई दिल्ली कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः एल51505एचपी1993पीएलसी031724

पंजी. कार्यालयः ग्राम बैरसेन, पी.ओ., मंझोली, तहसील-नालागढ, सोलन

हिमाचल प्रदेश-174101 भारत

ई-मेल : lsindustries93@gmail.com

वेबसाइटः www.lsindustrieslimited.com, सेल नंबर 9805511297

28वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-मतदान जानकारी

तथा बही बंदी की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 28वीं वार्षिव

सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को अप 2.30 बजे ग्रा

बैरसेन पी.ओ. मंझोली, तहसील नालागढ़, सोलन, हिमाचल प्रदेश-174101 भारत में एजीए

सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन अंशधारकों को प्रेषित की जा चकी है जिनकी ई-मे

आईडी डिपॉजिटरी अभिलेखों में पंजीकृत हैं। कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन नियमावल

2014) तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विनियम 42 के साथ पठित कंपर्न

अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुपालन में पुनः सूचित किया जाता है कि कंपनी व

सदस्यों की पंजिका व अंश अंतरण बहियां एजीएम के उददेश्यार्थ शनिवार, 24 सितंब

कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित धारा 10

और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में सदस्यों क

एजीएम सूचना में निर्धारित समस्त संकल्पों पर एजीएम स्थल के अलावा किसी अन्य स्थ

से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली ('दूरस्थ ई-मतदान') का उपयोग करते हुए अपना मतद

करने की सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वा

उपलब्ध कराई गई है, तथा व्यवसाय का लेन-देनऐसी मतदान प्रणाली के माध्यम से संपन

।. एजीएम सूचना में निर्धारितानुसार साधारण और विशेष व्यवसाय का लेन—दे

दूरस्थ ई-मतदान सुविधा का प्रारंभ मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 (सुबह 09.00 बजे

होगा तथा समापन गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को (सायं 05.00 बजे) होगा। दूरस्थ

. इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान करने की योग्यता के निर्धारण हेत कट–ऑफ तिशि

कोई व्यक्ति जो एजीएम सचना के प्रेषणोपरान्त कंपनी के अंशों का उपार्जन करता

तथा कंपनी का सदस्य बनता है और कट-आफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 23 सितंबर

2022 के अनुसार अंशों का धारण करता है-वो helpdesk.evoting@cdslindia.com

पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि य

कोई व्यक्ति ई-मतदान के लिए सीडीएसएल के साथ पहले ही पंजीकत है तो मतद

करने के लिए विद्यमान प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता ह

सदस्य कृपया नोट करें कि:- (क) मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीए

में उपलब्ध कराई जाएगी। (ख) ऐसे सदस्य जो एजीएम से पूर्व ही दूरस्थ ई-मतदा

द्वारा अपना मतदान कर चुके हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परन्त वे प्र

अपना मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। (ग) एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑप

तिथि के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित सदस्य की पंजिका में अथवा लाभाश

स्वामी की पंजिका में अभिलेखित है, केवल वही दूरस्थ ई-मतदान के साथ-साथ मतप

एजीएम सचना के साथ 28वां वार्षिक प्रतिवेदन डाउनलोड करने हेत कंपनी

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के संबंध में किसी पूछताछ की स्थिति में कृप

www.evotingindia.co.in के डाउनलोड्स सेक्शन में उपलब्ध अंशधारकों हेत

फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा ई-मतदान प्रयोक्ता पुस्तिका का संदर

ग्रहण करें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल लिख सकते है

बोर्ड के आदेश द्वार

जितेंद्र कुमार यादव

डीआईएन : 09184532

कृते एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

के माध्यम से एजीएम में मतदान करने की सुविधा पाने का हकदार होगा।

वेबसाइट http://lsindustrieslimited.com/ lsi पर उपलब्ध है।

2022 से शुक्रवार 30 सितंबर, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

किया जा सकता है। अतः समस्त सदस्यों को सचित किया जाता है कि:-

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा किया जा सकता है:

शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 है।

दिनांक : 06.09.2022

ई-मतदान उक्त तिथि एवं समय के बाद अनुमत्य नहीं होगा।

सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय के लेन-देन करने के लिए किया जाएगा।

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक10/09/2022 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदारों: श्री अमित कुमार गुप्ता एवं श्रीमती नेहा कुमारी (ऋण खाता **3948903378, ओडी खाता सं.3988316511),** को सूचना में उल्लिखित राशि रु.36,38,290 / - (छत्तीस लाख अड़तीस हजार दो सौ नब्बे रूपये मात्र) 10.09.2021 को बकाया (इस सूचना की तारीख) आगे ब्याज, खर्च एवं अन्य शुल्क आदि के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 02 सितम्बर, 2022 को ले लिया है। कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन—देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी

परिशिष्ट-IV |नियम-8(1)| देखें

आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

लेनदेन रु.36,38,290 / - (छत्तीस लाख अड़तीस हजार दो सौ नब्बे

रूपये मात्र) 10.09.2021 को, आगे ब्याज, व्यय एवं अन्य शुल्क आदि के साथ

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के

सम्पत्ति का विवरण यहाँ स्थित सम्पत्ति का साम्यिक बंधकः 1531/3, दूसरी मंजिल, खसरा नम्बर 637 / 350, वजीर नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003. सम्पत्ति की सीमाएः उत्तरः सम्पत्ति सं.1532 दक्षिणः भवन का शेष भाग

पश्चिमः अन्य की सम्पत्ति पूर्वः रोड

भुगतान के अधीन होगा।

तिथि: 02.09.2022 प्राधिकत अधिकारी स्थानः नई दिल्ली सेंटल बैंक ऑफ इंडिया

LT Foods

CIN L74899DL1990PLC041790 Regd. Off.: Unit No. 134, 1st Floor, Rectangle-1, Saket District Centre, New Delhi-110017 Tel.: 011-29565344 Corp Off: 4th Floor, MVL- I Park, Sector-15, Gurugram-122001 Tel: 0124-3055100, Email: ir@ltgroup.in Website: www.ltgroup.in

सार्वजनिक सूचना एलटी फूड्स लिमिटेड के शेयरघारक कपया ध्यान दें

- 1. यह सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार के सामान्य परिपन्न (संख्या) 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 और 02/2022 और अन्य सभी लागू कानूनों और जारी परिपत्रों के साथ पठित और सेबी परिपत्र सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15.01.2021 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13.05.2022 का अनुपालन करते हुए कम्पनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 30 सितंबर 2022 दोपहर 12.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमीं से आयोजित की जाएगी जिसके तहत किसी एक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति होगी ताकि नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष कार्यों को पूरा किया जाए।
- वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत / उपलब्ध हैं। हालांकि यदि कम्पनी के शेयरधारक कथित सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की वास्तविक प्रति प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो कम्पनी से in@ltgroup.in के माध्यम से अनुरोध कर

2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों के साध

- 3. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट http://ltgroup.in/ के निवेशक अपडेट अनुभाग, स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई और बीएसई) की वेबसाइट और एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा देने वाली एजेंसी) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ पर भी उपलब्ध होगी।
 - डिमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता, मोबाइल नंबर, पैन, नामांकन, पावर ऑफ एटॉनी या अन्य विवरण अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत कर दें।

• फिजिकल रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना ईमेल

- पता, मोबाइल नंबर, पैन, नामांकन, पावर ऑफ एटॉर्नी या अन्य विवरण कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को प्रदान करें - बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लि., 302, कुशल बाजार, 32-33, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 दूरभाष : 011-42425004 फैक्स : 022-28475207 ईमेल आईडी investor.del@bigshareonline.com और bssdelhi@bigshareonline.com वेबसाइट : https://www.bigshareonline.com/
- 4. शेयरवारकों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों पर रिमोट वोटिंग का अवसर दिया जाएगा। डीमैटीरियलाइज्ड, फिजिकल रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और ईमेल पता पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों के लिए रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया शेयरधारकों के लिए जारी सूचना में उपलब्ध होगी।
- 5. शेयरवारकों को लागू कानूनों के अनुसार ईमेल से 32वीं एजीएम की सूचना शीघ ही
- 6. यह सचना भी दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और आवश्यक घोषणा) विनियम, 2015 के नियम 42 के अनुसार कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 तक (दोनों दिन शामिल) एजीएम के लिए बंद रहेंगी।

For LT Foods Limited Place: Gurugram Date: September 06, 2022

Monika Chawla Jaggia Company Secretary & Compliance Officer Membership No. F5150

दी कांगड़ा को-आंपरेटिव बैंक लि. सी-29, कम्युनिटी सेन्टर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 फोन: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

-मेलः legal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com, चेबसाईटः www.kangrabank.com ई-नीलामी बिक्री सचना का शद्धिपत्र

यह हाइपोकेटेड व्हीकल पंजीकरण सं. HR-63ई-8570 की ई-नीलामी द्वारा बिक्री के लिये 4.9.2022 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित खाता श्री महावीर पुत्र श्री सुरत सिंह, ई-नीलामी तिथि 10.10.2022 के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में है।

बिक्री सचना में सचना के हेडिंग में ''बिक्री सचना'' की जगह गलती से ''कब्जा सचना'' प्रकाशित हो गई है। अतः सही हेडिंग ''बिक्री सुचना'' है। कुपया ''कब्जा सुचना'' की जगह उसे ''बिक्री सुचना'' पढें तथा अन्य नियम एवं शर्तें पर्ववत रहेंगे। स्थानः नई दिल्ली प्राधिकत अधिकारी दी कांगडा को-ऑपरेटिव बैंक लि.

तिथि: 5.9.2022

पहचान की अपील



सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि एक व्यक्ति (फोटो में दर्शाया गया) जिसका नामः नामालूम, परिवार व पताः नामालूम, जो दिनांक 19.08.2022 को 13.35 बजे, केएम पोल नंबर 09 / 8-40 आदर्श नगर रेलवे स्टेशन, दिल्ली पर मृत अवस्था में पाया गया। इस संदर्भ में डीडी संख्या 7ए दिनांक 19.08.2022 थाना सब्जी मण्डी रेलवे स्टेशन, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। मृत शरीर को पहचान के लिए सब्जी मण्डी

मौर्चरी में 72 घंटे के लिए संरक्षित रखा गया है।

जिसका हलिया नीचे दिया गया है:-

लिंगः पुरुष, आयः 30-35 वर्ष, कदः 5' 2" फीट, रंगः गेहँआ, पहनावाः सफेद रंग की टी–शर्ट और नीले रंग का लॉअर पहने हुआ था।

मतक के बारे में कोई जानकारी या सुराग रखने वाला कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पते या टेलीफोन नंबर पर सुचित करें। थाना प्रभारी

थाना सब्जी मण्डी रेलवे स्टेशन वेबसाइट: http://cbi.nic.in फोन नं. 011-23692455 ई-मेल: ciccbi@cbi.nic.in टेली. न: 011-23014046/23015218 मो. नं. 981198063 फैक्स नं: 011-23011334 DP/658/RLY/2022

INCONE FINANCE LIMITED Regd. Off: 1212, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019 CIN: U65999DL1922PLC051182

Website: www.inconefinancelimited.in E-mail: incone1992@gmail.com NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirtieth Annual General Meeting of Incone Finance

Limited will be held at the Registered office of the Company at 1212, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019 on Friday, the 30thday of September, 2022 at 10:00 A.M. to transact the following business: ORDINARYBUSINESS: To consider and adopt the Audited Financial Statements for the financial year ended 31st

- March, 2022 and the reports of the Auditors and Board of Directors thereon.
- To appoint Director in place of Shri Raiat Agarwal (DIN: 00266205) who retires by rotation. and being eligible, offers himself for reappointment.

3. Conversion of Company into Private Limited Company

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of section 13, 14 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013, if any and subject to the approval of the Tribunal (powers delegated to the ROC by Central Government vide General Circular No. 18/2014 dated June 11, 2014) the consent of the shareholders of the Company be and is hereby given to convert the Company from 'Public Limited' to 'Private Limited' and consequently the name of the company be changed from "INCONE FINANCE LIMITED" to "INCONE FINANCE PRIVATE LIMITED" by inserting the word 'Private' before the word 'Limited' RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this resolution, the Board of

Directors of the Company be and are hereby authorized to execute all such documents, instruments and writings as may be required and to take all such steps and actions and give such directions as may in its absolute discretion deem necessary and to settle any question that RESOLVED FURTHER THAT any of the Directors be and are hereby severally authorized

to do all such acts, deeds and things as may be necessary or expedient to give effect to this Alteration of Name Clause contained in the Memorandum of Association:

To consider and if thought fit, to give assent/ dissent to the following Resolution as Special

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 13 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and the rules framed thereunder the consent of the Members be and is hereby accorded for substituting Clause I of the Memorandum of Association of the Company with the following clause: "The Name of the Company is INCONE FINANCE PRIVATE LIMITED."

Adoption of New set of Articles of Association of the Company pursuant to the companies Act, 2013 and Conversion to a Private Limited Company:

To consider and if thought fit, to give assent/ dissent to the following Resolution as Special

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14 and other applicable provisions if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Companies (Incorporation) Rules, 2014, including any statutory modifications or re-enactment thereof from time to time, the Articles of Association of the Company be and is hereby altered to be in conformity with the provisions of the Act relating to a private limited company and thereby inserting the restrictive clause as per Section 2(68) of the Act.

RESOLVED FURTHER THAT the new set of Articles of Association pursuant to the Act primarily based on the Form of Table F of Schedule I under the Act, be and is hereby approved and adopted as new set of Articles of Association in the place of existing Articles of Association of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT any of the Directors be and are hereby severally authorised to do all such acts, deeds and things as may be necessary or expedient to give effect to

By Order of the Board For Incone Finance Limited

Rajat Agarwal

Director

Place: New Delhi Date: September 05, 2022

NOTE: The Register of Members and Transfer Books of the Company will remain closed from 24th September, 2022 till 29th September, 2022 (Both days inclusive) for determining the names of Members eligible for dividend on Equity Shares, if declared at the Meeting.

फॉर्म जी अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण (दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 की विनियम 36ए (1) के अधीन) संबंधित विवरण

	सबाधत	विवरण
1.	कारपोरंट ऋषी का नाम	आरएनची डॉरियटैलिटी पविंगेज प्राइनेट लिक्टिड
2.	कारपोरंट ऋषी की संस्थापना की तिथि	27.04.2015
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी दर्ग/पंजीकृत है	रविसद्भार ऑफ कंपनीय- कानपुर
4.	कारपोरंट ऋषे का निर्गामत पहचान संख्या/सीमित द्यक्तिय पहचान संख्या	U65204UP2015PTC078370
5.	कारपोरंट ऋषी के पंजीकृत कार्यालय का पता और प्रधान कार्यालय का पता (चर्दि कोई है)	इमसीए के विकार के अनुसार पंजीकृत कार्यालयः पर्नट नंव थी-180, फ्लैट नंबर 1, लीडिया नगर गजियाबाद, पूरी- 201001
6.	बारपेरेट ऋषी के संबंध में इंग्सॅलवेमी शुरुआती तिथि	13.06.2022
7.	अधिरुपि की अधित्यक्ति के आर्थकर की तिथि	06.09.2022
8.	कोड की चात 25(2)(एक) के अधीन प्रस्ताय आवेदकों के लिए पातता उपलब्ध है	प्रस्ताव पेशेवर को cirp.mv@gmail.com पर अनुगेष चेतने हा प्रम किया जा सकता है
9,	धारा २७ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध है	प्रशास पेसेवर को cirp.mv@gmail.com पर अनुरोध भेजने दा प्राप्त किया जा सकता है
10.	अधिरुपि को अधिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	21.09.2022
11.	प्रत्यक्षित प्रस्ताय आर्यदर्थों की अनंतिम सूची जारी करने जी तिथि	01.10.2022
12.	अर्थीतम सूची पर आयतिमी के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	06,10,2022
13.	प्रत्यक्षित प्रस्तव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	16.10.2022
14.	प्रत्यक्षित प्रस्ताय आवेदकों के लिए प्रस्ताय थोतना के लिए अनुदेश तथा सूच्या आयन, मृत्योकन सारणी जारी करने बंदे तिथि	06,10.2022
15.	प्रस्ताव भीजन, मूल्यांकन सारती, सूचना झपन तथा आयाची जनकारी तेतु अपुरोध प्राप्त करने की प्रिधि	केवल ऐसे आवेदक जो पात्रण मानदंद को पूरा करते हैं (उसर सि क के अनुसार) और एनटीए पर हरताधर किए हैं, उन्तें इतेक्ट्रॉक पीजना के माध्यम से प्रस्ताय पीजना, मूल्यांकन माध्ये और सूक आपन और देश कम के लिए अनुरोध को पहुंच प्रदान की जाएंदे अवेदक Grp.mw@gmail.com पर ईमेल पर विशिष्ट अनुरोध क समजे हैं।
16.	प्रश्ताय चेन्ना प्रस्तुत करने की ऑतम विध	05.11.2022
17.	प्रस्ताय पेसेवर को प्रस्ताय योजना प्रस्तुत करने का तरीका	अतिम सुनी में प्रत्मातित प्रश्ताय आनेदक कोत, 2016 और इ विश्यमों के प्रायधानों के अनुसार तैयार की गई प्रश्ताय पोजना न मोजना को इत्तेक्ट्रॉनिक रूप से (प्रधावर्ड द्वारा विधियत सुनिधत औ परावर्ड किसी अन्य ईमेल द्वारा माझा किया जाना चाहिए) और वि 21 में उप्तिचीयत को पर गोलबंद लिक्सके में प्रश्ताय पेजेचर व प्रस्तृत कर सकते हैं। प्रश्ताय पोजना के अनुरोध में आगामी विवश प्रदान किया जाएगा।
18.	अनुमोदन के लिए निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्ताय चौजना के प्रस्तृतिकारण हेतु अनुमन्तित विधि	कमेरी अभि क्रेडिटमं के सदस्यों द्वारा जल्द से जल्द अनुमंदित।
19.	प्रस्ताव पेक्षेत्रर का नाम तथा पेत्रीकरण सं.	श्री अनुवय निर्भय, आईपी पंजीबरण ने. IBBI/IPA-001/IP-P00670/2017-2018/11468
20.	प्रत्ताच पेशेयर का नाम, पता य इ-मेल नैसा कि बोर्ड के साथ पेनीकृत है।	नामः सौ अनुराग निर्धेष थलः 204, सागर प्लाजा, प्लॉट नं. १७, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नग

अनुराग निर्भव प्रस्ताव पेशेवर

आरएनवी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में पंजी: सं. IBBI/IPA-001/IP-P00870/2017-2018/11468 एएफर वैधता: 14/12/2021 से 13/12/2022

नई विल्ली-110092,

र्स दिल्ली-110092,

भिलः cirp.mv@gmail.com

वेजने हारा प्राप्त किया जा सकता है।

f中: anurag@canirbhaya.com

पता: 204, सागर पताजा, पताँट नं. 19, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर,

विवरण cirp.mv@gmail.com पर प्रस्ताव पेतेवर का अनुरोध

पताः २०४, सागर प्लाजा, प्लॉट नं. 19, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092 बानः नदं दिल्ली तिषि: 06.09.2022 ई-मेलः cirp.mv@gmail.com, anurag@canirbhaya.com

प्रस्ताय पेशेवर से पताचार के लिए प्रयोग की जाने वाली जाम: वी अनुसाग निर्भय

इमेल तथा पत

जागानी फियरण पर या के साथ उपलब्ध हैं

पर्वेम जो के प्रकाशन की विधि

अठतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवायें अधिकृत एजेन्सी के तौर पर ली हैं।

रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी शिकायत/प्रश्न के लिए श्रीमती ईशा अग्रनाल,

हस्ता०/-राजेश गुप्ता प्रबन्ध निदेशक

Participant (DP) and register your email address and bank account details in your

Manner of registering/updating Bank details for receiving dividend electronically.

applicable laws on their registered email address in due course.

For Servotech Power Systems Limited

Place: New Delhi

. The Notice of the EGM will be sent to the shareholders in accordance with the

दिनांक

Company Secretary

मांग सूचना 13(2) के

अनुसार बकाया राशि

करोड चौरासी लाख चौरान्वे

हजार पाँच सौ सोलह रूपये

और छिहत्तर पैसे) +ब्याज व

अन्य खर्चे जोकि दिनांक 01.06.

2022 तक तथा भविष्य के देय

ब्याज एवं अन्य खर्चे।

रेल0 15,04,168.00 /- (पन्द्रह

लाख चार हजार एक सी

अडसठ रूपये) +ब्याज व अन्य

खर्च

रू0 14,37,793.00 / - (चौदह

लाख सैतीस हजार सात सौ

तिरान्वे रूपये) +ब्याज व अन्य

खर्च

रू0 16,12,674.18 / - (सोलह

लाख बारह हजार छः सौ

चौहत्तर रूपये और अठठारह

पैसे) +ब्याज व अन्य खर्चे

रू0 19,89,040.14 / - (उन्नीस

लाख नवासी हजार चालीस

रूपये और चौदह पैसे) +ब्याज

व अन्य खर्चे

〒0 45,04,812.00/-

पैतालीस लाख चार हजार आठ

सौ बारह रूपये) +ब्याज व अन्य

खर्च

₹0 44,80,563.00 /-

(चवालीस लाख अस्सी हजार

गाँच सौ त्रेसठ रूपये) +ब्याज व

रूo 12,00,129.00 /- (बारह

लाख एक सौ उन्तीस रूपये)

+ब्याज व अन्य खर्चे

प्राधिकृत अधिकारी

अन्य खर्चे

02.09.2022

00